

BF INVESTMENT LIMITED

Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411035
 CIN : L65993PN2009PLC134021 Tel: +91 77190 05777 Email : secretarial@bflpure.com Website : www.bflpure.com

Extract of Statement of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2024.

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		30-06-2024	30-06-2023	31-03-2024	30-06-2024	30-06-2023	31-03-2024
		Un-Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1	Total Income from operations	77.23	59.30	1,181.59	77.23	59.30	428.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional and / or Extraordinary items)	70.12	49.57	1,113.70	70.12	49.57	360.67
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary items)	70.12	49.57	1,113.70	70.12	49.57	360.67
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or Extraordinary items)	62.25	37.59	837.07	1,825.11	563.01	4,337.43
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	7,952.96	1,141.53	8,534.11	9,716.61	1,866.75	15,112.92
6	Equity Share Capital	188.34	188.34	188.34	188.34	188.34	188.34
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)			27,688.41			61,824.53
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each - not annualised) Basic & Diluted	1.65	1.00	22.22	48.48	66.43	115.15

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company website www.bflpure.com.

For BF Investment Limited
 B. S. Mitkari
 Director
 DIN : 03632549
 Duly Authorised by the Board of Directors on their behalf

Place : Pune
 Date : August 14th, 2024

KERALA AYURVEDA LTD

CIN: L34233KL1992PLC005892
 Regd. Off: VII/15, Nedumbassery, Athani P.O-683 585, Kerala.
 Email: info@keralayurveda.biz; www.keralayurveda.biz; Ph: 0484-2476301

EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended		Year Ended	Quarter ended		Year Ended		
		30th June 2024	31st Mar. 2024	30th June 2023	31st Mar. 2024	30th June 2023	31st Mar. 2024		
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from operations	1,539.60	1,704.84	1,586.40	6,762.13	2,747.35	2,738.80	3,177.95	10,233.62
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(172.53)	12.68	27.49	42.74	20.87	132.35	(14.55)	127.11
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(172.53)	(40.29)	27.49	42.74	20.87	79.38	(14.55)	127.11
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(129.40)	(71.67)	20.56	(27.05)	46.00	10.25	(30.25)	(86.29)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income)	(121.67)	(96.88)	27.70	(30.59)	39.36	(41.29)	(28.93)	(156.25)
6	Equity Share Capital	1,203.24	1,203.24	1,055.57	1,203.24	1,203.00	1,203.00	1,055.57	1,203.00
7	Other Equity								
8	Earnings Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/each) Basic & Diluted	(1.00)	(0.81)	0.26	(0.25)	0.33	(0.34)	(0.27)	(1.30)
	b) After Extraordinary items (of Rs.10/each) Basic & Diluted	(1.01)	(0.81)	0.26	(0.25)	0.33	(0.34)	(0.27)	(1.30)

Note: 1) The Financial Results of three months ended June, 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th August 2024.
 2) Figures of the corresponding previous period have been regrouped/rearranged wherever necessary to conform to the classification of the current period.

For and on behalf of the Board:
 For Kerala Ayurveda Limited
 Dr. K Anilkumar
 Executive Director
 (DIN:00226353)

Place: Athani
 Date: 14th August 2024

VISHNU CHEMICALS LIMITED

CIN: L85200TG1993PLC046359
 Regd. Off: Plot No. C-23, Road No. 8, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad – 500 096
 Tel: 040-23396817, 23327723/ 29; Fax: 040-23314158
 Website: www.vishnuchemicals.com; Email id: investors@vishnuchemicals.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended
		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (Net)	25817.56	24993.50	101078.54	33887.06	30072.93	121260.37
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	3414.23	3284.81	12734.23	4008.94	3706.89	14374.27
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	3414.23	3284.81	12734.23	4008.94	3706.89	14374.27
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2632.15	2549.21	9427.03	3046.66	2862.36	10110.02
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2629.90	2546.74	9263.60	3284.61	2859.89	9875.16
6	Paid-up Equity Share Capital (FV ₹ 2/- each)	1310.54	1194.60	1310.54	1310.54	1194.60	1310.54
7	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) Basic; (₹) Diluted: (₹)	4.02 4.02	4.27 4.27	14.82 14.82	4.65 4.65	4.79 4.79	15.90 15.90

Note: The above is an extract of the detailed format of Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for the first quarter ended June 30, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on August 14, 2024. The full format of the same is available on the Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com, www.nse-india.com and also on Company's website www.vishnuchemicals.com

For and on behalf of the Board
 For Vishnu Chemicals Limited
 Sd/-
 Ch. Krishna Murthy
 Chairman & Managing Director
 DIN: 00030274

Place: Hyderabad
 Date : August 14, 2024

KAKATIYA CEMENT SUGAR & INDUSTRIES LIMITED

1-10-140/1, 'GURUKRUPA', Ashok Nagar, Hyderabad-500 020.
 CIN: L26942TG1979PLC002485 Website : www.kakatiyacement.com

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2024 (Rs. in Lacs)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30.06.2024 (Un-audited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Un-audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations (net)	3002.84	3085.86	4033.98	15595.25
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(174.34)	66.91	(174.03)	(152.68)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(174.34)	66.91	(174.03)	(152.68)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(154.02)	141.77	(172.81)	(134.45)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(154.02)	156.10	(172.81)	(120.12)
6	Equity Share Capital	777.39	777.39	777.39	777.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous year)	--	--	--	21747.21
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic; 2. Diluted:	(1.98)	1.82	(2.22)	(1.73)

Note: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 13.08.2024 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14.08.2024.
 2. In terms of Sec.133 of the Companies Act, 2013, the company has adopted Indian Accounting Standards (Ind.AS) w.e.f. 1st April 2017 and these financial results have been prepared in accordance with the above said Ind. AS.
 3. These Financial Results are published pursuant to Regulation 47 (1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
 4. The above is an extract of detailed format of Financial Results for the Quarter ended 30.06.2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Quarterly ended 30-06-2024 financial Results are available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and company's website at www.kakatiyacement.com.

FOR KAKATIYA CEMENT SUGAR & INDUSTRIES LTD.
 Sd/- P. VEERAJAH
 CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place : Hyderabad
 Date : 14-08-2024

SAKTHI SUGARS LIMITED

CIN : L15421TZ1961PLC000396
 Regd. Office : Sakthi Nagar PO - 638315, Erode District, Tamil Nadu
 Ph : 0422 4322222, 2221551 E - mail : shares@sakthisugars.com
 Website : www.sakthisugars.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2024 (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
	1. Total Income from operations	39,358.92	37,318.36
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	3,264.13	749.65	(5,859.16)
3. Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	6,675.72	1,074.55	17,390.94
4. Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional Items)	5,789.70	8,055.95	12,949.21
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	5,958.20	8,115.29	12,875.43
6. Equity Share Capital	11,884.90	11,884.90	11,884.90
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet (in Rs.) (not annualised for quarterly figures) (for continuing and discontinued operations)	-	-	(91.23)
- Basic	4.87	6.78	10.90
- Diluted	4.87	6.78	10.90

Note: a) During the financial year 2023-24, the Company had sold its Soya Unit at Pollachi for a consideration of Rs. 12,450.00 Lakhs, on slump sale basis and recognised Rs. 1,443.26 Lakhs as profit on disposal of Soya unit.
 b) Results of this unit for all the periods presented have been disclosed as results from Discontinued Operations.
 Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (BSE www.bseindia.com and NSE www.nseindia.com) and on the Company's website (www.sakthisugars.com).

For Sakthi Sugars Limited
 (M. Balasubramanian)
 Managing Director
 (DIN : 00377053)

Place : Coimbatore
 Date : 14.08.2024

Uttam Sugar Mills Limited

Regd. Office : Village Libberheri, Tehsil Roorkee, Distt. Haridwar (Uttarakhand)
 CIN : L99999UR1993PLC032518, Tel. No. : 0120 - 4525000
 Website - www.uttamsugar.in, Email ID - investorrelation@uttamsugar.in

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2024

S. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		30.06.2024		31.03.2024	30.06.2024		31.03.2024
		3 Months (Unaudited)	3 Months (Unaudited)	12 Months (Audited)	3 Months (Unaudited)	3 Months (Unaudited)	12 Months (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	45,697	46,177	2,05,552	45,697	46,177	2,05,552
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	859	4,131	17,882	859	4,131	17,882
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	859	4,131	17,882	859	4,131	17,882
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	643	3,097	13,221	643	3,097	13,221
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	705	3,103	13,141	644	3,103	13,141
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81
7	Other Equity (as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	65,791 (as on 31.03.2024)					
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic (In Rs.)	1.69	8.12	34.67	1.53	8.12	34.67
	2. Diluted (In Rs.)	1.69	8.12	34.67	1.53	8.12	34.67

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30.06.2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30.06.2024 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the company's website (www.uttamsugar.in).
 2) The Consolidated Financial Results include results of Associate company - Uttam Distilleries Limited (Associate Company as on 30.06.2024).

For Uttam Sugar Mills Limited
 Sd/-
 (Raj Kumar Adlakh)
 Managing Director

Place : Noida
 Date : 14th August, 2024

K G DENIM LIMITED

Registered Office : Then Thirumalai, Coimbatore - 641 302, Ph : 04254-235240, Fax : 04254-235400.
 E-mail : cskgd@kgdenim.in, Website : www.kgdenim.com
 CIN : L17115TZ1992PLC003798

EXTRACTS OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024 (Rs. in Lakhs, Except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter ended		Quarter ended	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations (net)	2,665	6,479	6,390	25,970
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(2,384)	(1,839)	(1,255)	(3,771)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(354)	(1,582)	(1,255)	(3,514)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(254)	(1,085)	(935)	(2,526)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(263)	(884)	(935)	(2,323)
6	Equity Share Capital (face value of Rs.10/- per Share)	2,565	2,565	2,565	2,565
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	1,288
8	Earnings per equity share (face value of Rs.10/- each) Basic in Rs. Diluted in Rs.:	(1.03) (1.03)	(4.23) (4.23)	(3.65) (3.65)	(9.85) (9.85)

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.kgdenim.com).
 2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th August 2024 and subject to limited review by the Statutory Auditor of the Company.
 3. The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
 4. The Company has during the period under review received Rs. 2039.72 Lakhs as a result of the favorable order by CESTAT for the period concerning excise duty pertaining to the fiscal years 1994 to 1996. This receipt has been treated as extraordinary item in the financial statements for the period in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles.
 5. The disaster management agency of the Tamil Nadu Government has declared Coimbatore District drought hit, vide GO (MS.) no. 112 dated 13.03.2024, due to large deficit of rain fall resulting in water scarcity. Further the State Government has ordered ban on supply of water for operations in view of the hydrological drought under section 133 of the IPC on 24.03.2024. The Company is dependent for water from the river Bhavani for its operations and never faced the above situation in history, which significantly affected the production for the period under review. This order was lifted on 24th July, 2024.
 6. Recognising the drought and consequent natural calamity the State Level Bankers committee (SLBC) with the concurrence of the RBI, have announced a relief package including restructuring of loans. As per the policy of the RBI policy on Natural Calamity under which these reliefs are sanctioned, Banking accounts with Indian Bank and State Bank of India have become substandard, will revert back to standard status on completion of restructuring. The Banks in the consortium meeting dated 12th August, 2024 have agreed to the restructuring under the RBI policy.
 7. The Company has certain overdue trade creditors out of total outstanding of Rs. 13204.77 lakhs as on 30.06.2024. Some of them have issued notice for recovery of the outstanding dues as on 30.06.2024 amounting to Rs. 937.35 lakhs. The aforesaid conditions indicate liquidity stress. The Management is confident on resolving the issue by taking measures to improve the liquidity position as well as looking for other avenues to increase the volumes.
 8. The figures for the previous periods have been re-grouped/re-arranged wherever necessary to make them comparable with those of current period.

For K G DENIM LIMITED
 Sd/-
 KG BAALAKRISHNAN
 Executive Chairman DIN : 00002174

Place: Coimbatore
 Date : 14.08.2024

CALCOM VISION LIMITED

Regd. Office : C-41, Defence Colony, New Delhi-110024
 Email id: corp.compliance@calcomindia.com | Website: www.calcomindia.com
 CIN: L92111DL1985PLC021095 | Contact No - 0120-2569761

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024 (Rs. in Lakhs except per Share data)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.24 Unaudited	31.03.24 Audited	30.06.23 Unaudited	31.03.24 Unaudited	31.03.24 Audited		
1	Total income from operations	1837.87	4805.37	3324.08	16162.90	1837.87	4805.37	16162.90
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(180.58)	144.24	56.86	216.19	(180.58)	144.24	216.19
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(180.58)	144.24	56.86	216.19	(180.58)	144.24	216.19
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(180.58)	81.37	42.55	132.05	(180.58)	77.51	128.20
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(164.57)	105.54	60.71	214.16	(170.17)	101.68	210.30
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10 each fully paid up)	1345.65	1345.65	1338.50	1345.65	1345.65	1345.65	1345.65
7	Reserves Excluding Revaluation Reserve	-	-	-	3433.97	-	-	3830.11
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -							
	- Basic	(1.33)	0.61	0.33	0.99	(1.37)	0.58	0.97
	- Diluted	(1.29)	0					

फोटोयुक्त विस निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा: सीईओ

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी 2025 को अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड ने बताया दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची डीपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुनर्निर्धारण एवं कन्ट्रोल टेबल को अद्यतन करने का कार्य किया जाएगा, ताकि आलेख निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशित किया जाएगा तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक दावे आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। दिनांक 09 से 10 नवम्बर, 2024 तथा दिनांक 23 से 24 नवम्बर, 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा तथा दिनांक 06 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का

अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी अर्ह नागरिक का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर अथवा एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, तो ऐसे किसी भी निर्वाचक का नाम किसी एक मतदेय स्थल/एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नियमानुसार हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है ताकि किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न हो। उन्होंने बताया यदि किसी निर्वाचक को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुँचने में 02 किमी से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है तो ऐसे निर्वाचकों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वर्तमान में किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक हो गई है तो इस प्रकार के मतदेय स्थलों को विभाजित कर नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जा सकता है।

वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने अथवा जीर्ण-शीर्ण होने की दशा में नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में मतदेय स्थल परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने बताया इस संबंध में सुझाव एवं प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार/धुप जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 10 सितम्बर, 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची विभागीय वैकसाइट पर भी जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे नागरिक, जो दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय/धुप जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में नियमानुसार प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप 6 पर नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो चस्था करने के साथ-साथ अपने निवास एवं आयु से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया वर्तमान

आलेख निर्वाचक नामावली में से किसी नाम को हटाने के लिए या निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने पर आपत्ति हेतु फार्म-7, भारतीय पासपोर्ट के आधार पर किसी अग्रवासी भारतीय नागरिक का नाम नामावली में सम्मिलित करने के लिए आवेदन फार्म-6क तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार संशोधन/शुद्धि के लिए, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदले जाने के लिए, निवास परिवर्तन (एक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से दूसरे बूथ में या एक विधान सभा से दूसरी विधान सभा क्षेत्र) के लिए फार्म 8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं 1951 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम-1960 में प्रकाशित के फलस्वरूप अब निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अर्हता तिथियां (01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) नियत की गयी हैं। उल्लिखित तिथियों को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले कोई भी अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म 6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त सभी प्रारूप 6, 7 व 8 विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

विशेष स्वच्छता अभियान अन्तर्गत 'स्वच्छता अपनाओ, बीमारों भगाओ' कार्यक्रम आयोजित, सीएम ने किया प्रतिभाग

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गांधी पार्क देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 'स्वच्छता अपनाओ, बीमारों भगाओ' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के माध्यम से 13 जनपदों के लिए स्वच्छता वाहनों (लीटर पीकर क्लोनिंग मशीन) का फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को सफाई कर उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वच्छता अभियान को सामूहिक प्रयासों से ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सभी को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पूरी क्षमता से स्वच्छता मिशन पर कार्य करना चाहिए। शहरों की

स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने कहा मानसून के दौरान बीमारियों से बचाव के लिए पर्यावरण मित्रों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से किया है। प्रदेश में 12 से 15 अगस्त तक विशेष स्वच्छता अभियान चल रहा है। देहरादून में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं, एनजीओ के सहयोग से जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाली बैंगनी सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है। वेद एवं पुराणों में भी स्वच्छता को महत्वपूर्ण बताया गया है। जहां स्वच्छता होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्ण देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, स्वच्छता की यह शुरुआत जन आंदोलन के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा

शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। जिसके लिए राज्य सरकार कई योजनाओं पर निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण का गहरा संबंध है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें स्वच्छता को प्राथमिकता में रखना होगा। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी को भी बढ़ावा देना है। जल्द ही सफाई की निगरानी हेतु क्यूआर कोड की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ठूक पेड़ मां के नाम अभियान को शुरूआत की है। उन्होंने सभी से ठूक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वच्छता हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के हर शहर को साफ करने का अभियान चलाया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने ब्रिटिश उच्चायोग एवं इन्फोसिस स्पिंगबोर्ड के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मौजूदगी में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ब्रिटिश उच्चायोग एवं इन्फोसिस स्पिंगबोर्ड के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सचिव शैलेश बाली ने ब्रिटिश उच्चायोग से डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलीन रौवेट के साथ चिर्चाना स्कॉलरशिप एवं इन्फोसिस स्पिंगबोर्ड के गर्वनमेंट पार्टनरशिप हेड सतोष अन्धपाण के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के साथ ब्रिटिश उच्चायोग एवं इन्फोसिस स्पिंगबोर्ड के एम.ओ.यू. होने से राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित होगा। इससे राज्य के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को नया अनुभव मिलेगा। यह राज्य

को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निरंतर नई योजनाओं का संचालन कर रही है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई के बाद युवा खाली न बैठें, इसके लिए अनेक कार्ययोजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास का प्रशिक्षण एवं सेमिनार का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भी निशुल्क कोर्स संचालित जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ छात्रों को नवाचार से भी जोड़ा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार और नवाचार अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सतत रूप से

राज्य के मानवीय संसाधनों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 35 विश्वविद्यालय हैं। 5 लाख से अधिक विद्यार्थी राज्य में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए कार्य कर रही है। बच्चों के शैक्षिक स्तर को भी बढ़ाया जा रहा है। अगले वर्ष तक राज्य के पांच विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में शामिल हों, इस दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चिर्चाना उत्तराखण्ड स्कॉलरशिप का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्र के गरीब मेधावी छात्रों को विशेष रूप से छात्राओं को

प्रकृति के गीत गाकर महिलाओं ने किया चंदन के पौधों का रोपण

वीर अर्जुन संवाददाता
रुद्रप्रयाग। रानीगढ़ पट्टी की ग्राम सभा कोट के सिंगलास देवता मिश्रित वन में बाबा केदारनाथ दास सेवा मंडल आगस्त्युनि के 15 सदस्यीय टीम ने महिलाओं के साथ मिलकर धार्मिक पौधों का रोपण किया, जिसमें रुद्राक्ष, सफेद व लाल चंदन, ढाक, कनक व चंपा आदि पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड जल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक कृष्णा बिष्ट ने सिंगलास देवता वन में महिलाओं की ओर से किये जा रहे जल संरक्षण मॉडल की सराहना की तथा सिंगलास देवता मिश्रित वन का अवलोकन किया। केदारनाथ सेवा मंडल के अध्यक्ष हिमालयी बाबा चंद्र सिंह नेगी ने महिलाओं को दस देवदार के वृक्ष भेंट किए तथा महिलाओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम प्रधान सुमन देवी ने

बताया कि महिलाएं विगत दो माह से जल संरक्षा का कार्य कर रही हैं, जिसमें लगातार उनको सफलता प्राप्त हो रही है। जल संरक्षण के साथ पौधों का रोपण भी किया जा रहा है, जो उनकी ग्राम सभा के लिए गर्व की बात है। पर्यावरण विशेषज्ञ देवराजवेन्द्र बदी ने दास सेवा मंडल से आये सभी सदस्यों को जल संरक्षण के लिए बनी चाल-खाल, खंतियों के मॉडल का अवलोकन कराया और इसके प्रयोग को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण की यह पारंपरिक विधि है, जिसके प्रयोग से हम अपने जल स्रोतों को पुनर्जाति दे सकते हैं। कार्यक्रम में नमामि गंगे के नोडल अधिकारी प्रो विरम वीर भारती ने महिलाओं के साथ वृक्षारोपण किया तथा महिलाओं के जल संरक्षण कार्य को नयी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

देश की विकास यात्रा के साथ ही नया उत्तराखण्ड भी मजबूत इरादों से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा: राज्यपाल

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के ज्ञात व अज्ञात गौरव सेनानियों को याद करते हुए कहा कि देश की आजादी एवं सुरक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे अतीत के गौरव की अनुभूति कराने के साथ ही अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह हमारे वर्तमान का आंकलन करने और सुगम भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत संभावनाओं

और सामर्थ्य से भरा हुआ है जो सतत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास करते हुए देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। हमने स्वतंत्रता के 100 वर्षों अर्थात् 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है, आने वाले अमृतकाल के इन 23 वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि भारत ने आजादी के इन 77 वर्षों में सभी चुनौतियों का सामना मजबूती से किया है, और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश की विकास यात्रा के साथ ही नया उत्तराखण्ड भी मजबूत इरादों से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे

बढ़ रहा है। हमारा प्रदेश आज देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। आर्थिक वृद्धि दर और विकास के कई सूचकांकों में सुधार कर उत्तराखण्ड ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्यपाल ने कहा की प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए युवा, किसान, मातृशक्ति और उद्यमियों की बड़ी भूमिका रहेगी। प्रदेश के सतत विकास और पलायन को रोकने के लिए कृषि, जैविक खेती, औद्योगिकी, वेल्नेस पर्यटन, नवाचार, शोध और नई तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों के विकास पर फोकस कर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कथन के अनुरूप 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हैं।

दून, मसूरी, टिहरी व हरिद्वार में निकाली गई तिरंगा यात्रा

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। दून में परेड ग्राउण्ड से तो मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा ने नगर पालिका परिषद मसूरी, स्कूलों बच्चों और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ मसूरी पिकचर पैलेस चौक से गांधी चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी हाथ में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष करते नजर आए। नेहा जोशी ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस शहर घर तिरंगाश्र महाभियान में सभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। सभी अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शहर घर तिरंगाश्र अभियान चलाया जा रहा है। उसी

कड़ी में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शहर घर तिरंगाश्र की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में तिरंगा हुआ करता था। आज उनके बलिदानों के बदौलत ही देश को आजादी मिली है। आज उसी जज्बे को जगाने की दोबारा जरूरत है। जिसके तहत 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है। टिहरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल के नेतृत्व में चंबा शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शहर और गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। यात्रा से पहले आगामी 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर चंबा ब्लॉक के भाजपा कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई।

उत्तर रेलवे			
निविदा सूचना			
आवृत्ति: अर्ध वार्षिक			
भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल अभियान/11/सुधाभास द्वारा ई-टेंडर निम्न टेंडर संख्या के अंतर्गत आमंत्रित किए जाते हैं। निविदा की कीमत तथा घोषित राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, अडिब क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन मुदातन करना होगा। विनियम ड्राफ्ट, बैंक चेक डिपॉजिट स्वीकृत आवृत्ति स्वीकृत नहीं होगी। टेंडर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।			
टेंडर संख्या/दिनांक	122-DRM-MB-24-25 Date: 13.08.2024	123-DRM-MB-24-25 Date: 13.08.2024	126-DRM-MB-24-25 Date: 13.08.2024
कार्य का नाम	Heavy repair to staff Quarters at KJK, DIL, MLD, RBD, SAN and Station in the section of SSE/WHRI under ADEN-IHRI	Preparation of Wharf on other side of line no. 11 with used sleepers at Hardoi goods shed	Provision of Electronic type track based rail Gauge Face Lubricator-26 no. under ADEN-IHRI
टेंडर क्लोजिंग दिनांक/समय	09.09.2024 (16:00 hrs.)	09.09.2024 (16:00 hrs.)	09.09.2024 (16:00 hrs.)
अनुमानित लागत	₹79,99,999.03	₹50,69,171.02	₹3,53,63,845.20
घटोदर राशि	₹1,60,000.00	₹1,01,400.00	₹3,26,800.00
निविदा लागत	₹0.00	₹0.00	₹1,00,000.00
बिडिंग आरंभ तिथि	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024
आफर की वैधता	60 Days	60 Days	90 Days
कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 Months	06 Months	60 Months
सं: 74-W/23/WA/Publication	दिनांक: 13.08.2024		2529/2024

उत्तर रेलवे					
निविदा सूचना					
आवृत्ति: अर्ध वार्षिक					
भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल अभियान/11/सुधाभास द्वारा ई-टेंडर निम्न टेंडर संख्या के अंतर्गत आमंत्रित किए जाते हैं। निविदा की कीमत तथा घोषित राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, अडिब क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन मुदातन करना होगा। विनियम ड्राफ्ट, बैंक चेक डिपॉजिट स्वीकृत आवृत्ति स्वीकृत नहीं होगी। टेंडर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।					
क्र.सं.	निविदा संख्या और कार्य का विवरण	लगभग लागत (₹)	अग्रिम धन (₹)	निविदा फार्म की लागत (₹)	निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खोलने के लिए अंतिम तिथि और समय
1	02-SNT-TWS-MB-2023-24 सुधाभास डिवीजन टीटीआर (एफएस +टीडीब्ल्यूएस + डब्ल्यूएसएस) 36 सेंट्स 1:12-36 सेंट्स & 1:8 5-03 सेंट्स	97,48,280.82	1,95,000/-	Nil	05.09.2024 15:00 hrs.
4	01-SNT-TWS-MB-2023-24 सुधाभास डिवीजन टीटीआर (एफएस +टीडीब्ल्यूएस) 44 सेंट्स (1:12-32 सेंट्स & 1:8.5-12 सेंट्स) & टीटीआर (टीडीब्ल्यूएस सीएमएससी) 30 सेंट्स (1:12-28 सेंट्स & 1:8.5-2 सेंट्स)	2,07,08,727.71	2,53,600/-	Nil	05.09.2024 15:00 hrs.
3	334-SNT-BTRA-MB-2023-24 बनथर-लीलहर रोड ओवर बिज इन एन एआईयू ऑफ बल्लभ कौशिक नंबर 334	39,75,071.09	79500/-	Nil	05.09.2024 15:00 hrs.
नोट: निविदा का पूरा विवरण www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है।					
निविदा सूचना: 0102-SNT-TWS/334-SNT-BTRA-MB-2023-24 दिनांक: 13.08.2024				2530/2024	
ग्राहकों की सेवा में सुखान के साथ					

उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड							
पंजीकृत कार्यालय: गांव तिखारवाड़ी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)							
सीआईएन: L99999UR1993PLC032518, फोन नंबर 0120 - 4625000							
वेबसाइट - www.uttamsugar.in , ईमेल आईडी - investorrelation@uttamsugar.in							
30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण (लाख ₹ में)							
क्र.सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		30.06.2024 3 महीने (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 3 महीने (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 12 महीने (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 3 महीने (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 3 महीने (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 12 महीने (अलेखापरीक्षित)
1	परिचालन से फल आयु (शुद्ध)	45,697	46,177	2,05,552	45,697	46,177	2,05,552
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असाधारण और/या असामान्य मदों से पूर्व)	859	4,131	17,882	859	4,131	17,882
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	859	4,131	17,882	859	4,131	17,882
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	643	3,097	13,221	643	3,097	13,221
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इसमें अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	705	3,103	13,141	644	3,103	13,141
6	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 10/-)	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81
7	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इसमें अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	65,791 (31.03.2024 को)					
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 10/-) (जारी और सनात परिचालनों के लिए) -						
	1. मूल (रुपयों में)	1.69	8.12	34.67	1.53	8.12	34.67
	2. वरिष्ठता (रुपयों में)	1.69	8.12	34.67	1.53	8.12	34.67
नोट							
1) उपरोक्त सभी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों (www.bseindia.com) और www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.uttamsugar.in) पर उपलब्ध है।							
2) समेकित वित्तीय परिणामों में सहयोगी कंपनी: उत्तम डिस्टिलरीज लिमिटेड (30.06.2024 को सहयोगी कंपनी) के परिणाम शामिल हैं: उत्तम डिस्टिलरीज लिमिटेड (30.06.2024 तक सहयोगी कंपनी)।							
कृते उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड							
हस्ता/—							
(राज कुमार अवलोक)							
प्रबंध निदेशक							

संक्षिप्त समाचार

रुद्रपुर में डोसा खा रही युवती से छेड़छाड़

रुद्रपुर, (वीओ) रुद्रपुर के गांधी पार्क स्थित टेले में डोसा खा रहे भाई-बहन से तीन मनचले युवकों ने अभद्रता कर दी। इतना ही नहीं युवक छेड़छाड़ पर उतर गए। इसी बीच आसपास खड़े जागरूक लोगों ने एक युवक को दबाकर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि, दो मनचले मौके से फरार हो गए। उधर, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, फिर उसे जेल भेज दिया है। फरार दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल, पुलिस को सौंपी तहरीर में एक युवती ने बताया है कि वो 11 अगस्त की रात को अपने भाई के साथ गांधी पार्क में डोसा खाने गई हुई थी। जब वो डोसा खाने लगे, तभी वहां पर पहले से खड़े तीन युवक उन्हें देखकर छीटाकशी करने लगे। युवती का आरोप है कि तीनों युवक अश्लील इशारे और बातें करने लगे। जिस पर वो उन्हें इंगोर कर एक साइड में जाकर खड़े हो गए। जिसके बाद काले रंग की शर्ट पहने एक युवक उनके पास आया। जिसने युवती के पीछे गलत तरीके से लात मारी। विरोध करने पर आरोपी भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए आपत्तजनक बातें करने लगा। जब उन्होंने पुलिस बुलाने की बात कही तो आरोपी कहने लगा कि वो किसी से नहीं डरता है। किसी को भी बुला ले। जिसके बाद आरोपी उसकी तरफ झपटा और शूट यानी कपड़े फाड़ने का प्रयास करने लगा। इस दौरान आरोपी ने उसके शरीर को गलत तरीके से भी छुआ। पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों ने ये भी कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में लड़कियों के साथ किया जा रहा है, उस तरह का हाल उसके साथ करने की भी धमकी दी। उधर, आसपास खड़े लोग भी तब तक मौके पर पहुंचे और भाई-बहन को बचा लिया। जिसके बाद दो आरोपी भाग गए।

गढ़वाल विश्वविद्यालय ने घोषित किया पीजी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट

श्रीनगर गढ़वाल, (वीओ) गढ़वाल विवि में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए अब तक 6 हजार से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कर लिया है। मंगलवार तक पूंजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए छात्र समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद मेरिट ऑर्डर कर छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरी तरफ विवि ने सोमवार देर सायं पीजी प्रवेश परीक्षा का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। विवि जल्द पीजी में भी प्रवेश करना शुरू कर देगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के 32 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सीयूईटी परीक्षा देने वाले छह हजार छात्रों ने ऑनलाइन गढ़वाल विवि के कैंपसों के लिए पंजीकरण किया है। छात्र अधिष्ठाता कल्याण प्रोफेसर एमएस नेगी ने कहा कि विवि में स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए दो माध्यमों से प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की गई है। यूजी के लिए सीयूईटी देने वाले छात्रों को पंजीकरण करने को कहा गया है। पीजी स्तर के लिए विवि द्वारा यूईटी परीक्षा कराई गई थी। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही स्नातकोत्तर में प्रवेश होंगे। उन्होंने कहा कि विवि के कैंपसों में स्नातक स्तर पर कुल साढ़े नौ हजार सीटें हैं, जिन पर अभी तक 6 हजार छात्रों ने पंजीकरण की फीस जमा कर दी है।

हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट

हरिद्वार, (वीओ) स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और आतंकी का अबाधनीय प्रतिविधि पर लगातार मुद्रा के लिए पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत बीडीएस और स्वान दल सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल, लॉज, धर्मशाला और संधि स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। एसएसपी प्रमोद सिंह डोबाल ने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, होटल और धर्मशालाओं में संधि गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने, शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक सत्यापन अभियान के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर और थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग की निर्देश दिए हैं। एसएसपी प्रमोद सिंह डोबाल ने बताया कि 15 अगस्त के मद्देनजर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पब्लिक प्लेस और महत्वपूर्ण जगहों पर किसी भी प्रकार की कोई संधि गतिविधि सामने आती है, तो तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डोंग स्व्याड और बीएडीएस टीम, थाना प्रभारी व्यक्तिगत सत्यापन अभियान चलाएंगे